



**भारतीय रिज़र्व बैंक**  
**RESERVE BANK OF INDIA**

वेबसाइट : [www.rbi.org.in/hindi](http://www.rbi.org.in/hindi)

Website : [www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in)

ई-मेल/email : [helpdoc@rbi.org.in](mailto:helpdoc@rbi.org.in)

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001

**Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort,  
Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502**

17 जनवरी 2025

भारतीय रिज़र्व बैंक – बुलेटिन साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक – सारांश

| 1. भारतीय रिज़र्व बैंक – देयताएं और आस्तियां* |          |         |          |        |       |
|-----------------------------------------------|----------|---------|----------|--------|-------|
| (₹ करोड़)                                     |          |         |          |        |       |
| मद                                            | 2024     | 2025    |          | घट-बढ़ |       |
|                                               | 12 जनवरी | 3 जनवरी | 10 जनवरी | सप्ताह | वर्ष  |
|                                               | 1        | 2       | 3        | 4      | 5     |
| 4. ऋण और अग्रिम                               |          |         |          |        |       |
| 4.1 केंद्र सरकार                              | -        | 0       | 0        | 0      | 0     |
| 4.2 राज्य सरकारें                             | 16087    | 36637   | 14620    | -22017 | -1467 |

\* \* आंकड़े अनंतिम हैं; घट-बढ़, यदि कोई है, तो पूर्णांक के कारण है।

## 2. विदेशी मद्रा आरक्षित निधि\*

| मद                                    | 10 जनवरी 2025 तक |             | निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़ |             |                          |             |         |             |
|---------------------------------------|------------------|-------------|----------------------------|-------------|--------------------------|-------------|---------|-------------|
|                                       |                  |             | सप्ताह                     |             | मार्च 2024 की समाप्ति पर |             | वर्ष    |             |
|                                       | ₹ करोड़          | मिलियन अ.\$ | ₹ करोड़                    | मिलियन अ.\$ | ₹ करोड़                  | मिलियन अ.\$ | ₹ करोड़ | मिलियन अ.\$ |
|                                       | 1                | 2           | 3                          | 4           | 5                        | 6           | 7       | 8           |
| 1 कुल आरक्षित निधि                    | 5380402          | 625871      | -63231                     | -8714       | -10854                   | -20548      | 247940  | 6934        |
| 1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां#           | 4607932          | 536011      | -71341                     | -9469       | -153912                  | -34939      | 59520   | -12497      |
| 1.2 स्वर्ण                            | 583572           | 67883       | 8042                       | 792         | 144253                   | 15208       | 191787  | 20637       |
| 1.3 विशेष आहरण अधिकार                 | 152861           | 17781       | 43                         | -33         | 1638                     | -351        | 1025    | -529        |
| 1.4 आईएमएफ में आरक्षित निधि की स्थिति | 36037            | 4195        | 24                         | -4          | -2832                    | -467        | -4392   | -676        |

\* घट-बढ़, यदि कोई है, तो पर्णांक के कारण है।

# इसमें (ए) भारतीय रिज़र्व बैंक की एसडीआर धारिता, क्योंकि वे एसडीआर धारिता के तहत शामिल हैं; (बी) आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी बॉण्ड में निवेश; और (सी) सार्क और एसीयू मुद्रा स्वेप व्यवस्था के तहत उधार दी गई राशि, शामिल नहीं है।

#### 4. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक – भारत में कारोबार

| (₹ करोड़)                       |                         |                            |                      |         |              |           |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|---------|--------------|-----------|
| मद                              | 27 दिसंबर 2024 को बकाया | निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़ |                      |         |              |           |
|                                 |                         | पखवाड़ा                    | वित्त वर्ष में अब तक |         | वर्ष-दर-वर्ष |           |
|                                 |                         |                            | 2023-24              | 2024-25 | 2023         | 2024      |
|                                 | 1                       | 2                          | 3                    | 4       | 5            | 6         |
| 2 अर्थों के प्रति देयताएं       |                         |                            |                      |         |              |           |
| 2.1 कुल जमाराशियां              | 22063132                | -5012                      | 2044128              | 1587905 | 2354258      | 1975090   |
|                                 | (21996441)              |                            | (1922841)            |         | (2232971)    | (2029687) |
| 2.1क. संवृद्धि (प्रतिशत)        |                         | -                          | 11.3                 | 7.8     | 13.3         | 9.8       |
|                                 |                         |                            | (10.7)               |         | (12.6)       | (10.2)    |
| 2.1.1 मांग                      | 2570099                 | -40123                     | 257074               | 126246  | 235753       | 132595    |
| 2.1.2 मीयादी                    | 19493033                | 35111                      | 1787054              | 1461660 | 2118504      | 1842496   |
| 2.2 उधार                        | 955100                  | 88166                      | 313736               | 177158  | 318621       | 196036    |
| 2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं | 996837                  | -146713                    | 147479               | 59409   | 184492       | 59707     |
| 7 बैंक ऋण                       | 17742873                | 155992                     | 2286709              | 1310709 | 2655091      | 1780929   |
|                                 | (17304330)              |                            | (1713636)            |         | (2082018)    | (1915459) |
| 7.1क. वृद्धि (प्रतिशत)          |                         | 0.9                        | 16.7                 | 8.0     | 20.0         | 11.2      |
|                                 |                         |                            | (12.5)               |         | (15.6)       | (12.4)    |
| 7 क.1 खाद्य ऋण                  | 56139                   | 3832                       | 23233                | 33058   | -10834       | 13000     |
| 7 क.2 खाद्येतर ऋण               | 17686734                | 152160                     | 2263476              | 1277651 | 2665925      | 1767929   |

1. 14 जुलाई 2023 से आंकड़े में एक गैर-बैंक का बैंक के साथ विलय का प्रभाव शामिल है।

2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े में विलय के प्रभाव शामिल नहीं हैं।

| 6. मुद्रा स्टॉक: घटक और स्रोत                                                       |                |            |                            |         |                      |      |           |       |              |      |           |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------------------|---------|----------------------|------|-----------|-------|--------------|------|-----------|--------|
| (₹ करोड़)                                                                           |                |            |                            |         |                      |      |           |       |              |      |           |        |
| मद                                                                                  | निम्न को बकाया |            | निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़ |         |                      |      |           |       |              |      |           |        |
|                                                                                     | 2024           |            | पखवाड़ा                    |         | वित्त वर्ष में अब तक |      |           |       | वर्ष-दर-वर्ष |      |           |        |
|                                                                                     |                |            |                            |         | 2023-24              |      | 2024-25   |       | 2023         |      | 2024      |        |
|                                                                                     | 31 मार्च       | 27 दिसंबर  | राशि                       | %       | राशि                 | %    | राशि      | %     | राशि         | %    | राशि      | %      |
|                                                                                     | 1              | 2          | 3                          | 4       | 5                    | 6    | 7         | 8     | 9            | 10   | 11        | 12     |
| एस3                                                                                 | 24831618       | 26513051   | -9641                      | -0.04   | 1912230              | 8.6  | 1681433   | 6.8   | 2396756      | 11.0 | 2257060   | 9.3    |
|                                                                                     | (24939860)     | (26579741) | (-10766)                   | (-0.04) |                      |      | (1639881) | (6.6) |              |      | (2202464) | (9.0)  |
| 1 घटक (1.1+1.2+1.3+1.4)                                                             |                |            |                            |         |                      |      |           |       |              |      |           |        |
| 1.1 जनता के पास मुद्रा                                                              | 3410276        | 3459713    | -16525                     | -0.5    | -20321               | -0.6 | 49437     | 1.4   | 133879       | 4.3  | 203598    | 6.3    |
| 1.2 बैंकों के पास मांग जमाराशि                                                      | 2586888        | 2711239    | -40054                     | -1.5    | 259892               | 11.2 | 124351    | 4.8   | 238554       | 10.2 | 130750    | 5.1    |
| 1.3 बैंकों के पास मीयादी जमाराशि                                                    | 18739918       | 20240470   | 44554                      | 0.2     | 1669369              | 10.0 | 1500552   | 8.0   | 2006204      | 12.3 | 1902134   | 10.4   |
|                                                                                     | (18848160)     | (20307160) | (43429)                    | (0.2)   |                      |      | (1459000) | (7.7) |              |      | (1847538) | (10.0) |
| 1.4 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि                                              | 94536          | 101629     | 2384                       | 2.4     | 3290                 | 4.2  | 7093      | 7.5   | 18119        | 28.8 | 20578     | 25.4   |
| 2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)                                                       |                |            |                            |         |                      |      |           |       |              |      |           |        |
| 2.1 सरकार को निवल बैंक ऋण                                                           | 7512016        | 7849379    | -199199                    | -2.5    | 6274                 | 0.1  | 337363    | 4.5   | 606335       | 9.2  | 677572    | 9.4    |
|                                                                                     | (7603571)      | (7900247)  | (-199197)                  | (-2.5)  |                      |      | (296676)  | (3.9) |              |      | (627630)  | (8.6)  |
| 2.1.1 रिज़र्व बैंक                                                                  | 1193213        | 1000891    | -238205                    |         | -471467              |      | -192322   |       | -190595      |      | 21232     |        |
| 2.1.2 अन्य बैंक                                                                     | 6318803        | 6848488    | 39006                      | 0.6     | 477741               | 8.4  | 529686    | 8.4   | 796930       | 14.8 | 656340    | 10.6   |
|                                                                                     | (6410358)      | (6899357)  | (39007)                    | (0.6)   |                      |      | (488998)  | (7.6) |              |      | (606398)  | (9.6)  |
| 2.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण                                                    | 16672145       | 18090649   | 189680                     | 1.1     | 1706980              | 11.8 | 1418504   | 8.5   | 2089739      | 14.9 | 1954033   | 12.1   |
|                                                                                     | (17202832)     | (18529191) | (182721)                   | (1.0)   |                      |      | (1326360) | (7.7) |              |      | (1819503) | (10.9) |
| 2.2.1 रिज़र्व बैंक                                                                  | 14406          | 10519      | 248                        |         | -21469               |      | -3887     |       | -14772       |      | 5439      |        |
| 2.2.2 अन्य बैंक                                                                     | 16657739       | 18080130   | 189432                     | 1.1     | 1728448              | 12.0 | 1422391   | 8.5   | 2104511      | 15.0 | 1948594   | 12.1   |
|                                                                                     | (17188426)     | (18518672) | (182474)                   | (1.0)   |                      |      | (1330247) | (7.7) |              |      | (1814064) | (10.9) |
| नोट: कोष्ठक में दिए गए आंकड़ों में एक गैर-बैंक के बैंक में विलय का प्रभाव शामिल है। |                |            |                            |         |                      |      |           |       |              |      |           |        |

| 8. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि परिचालन               |                       |                 |                  |                             |         |         |                         |                |      |                                                      |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|---------|---------|-------------------------|----------------|------|------------------------------------------------------|
| (₹ करोड़)                                                  |                       |                 |                  |                             |         |         |                         |                |      |                                                      |
| तारीख                                                      | चलनिधि समायोजन सुविधा |                 |                  |                             |         |         | स्थायी चलनिधि सुविधायें | ओएमओ (एकमुश्त) |      | निवल अंतर्वेशन(+)/ अवशोषण (-)<br>(1+3+5+7+9-2-4-6-8) |
|                                                            | रेपो                  | प्रतिवर्ती रेपो | परिवर्ती दर रेपो | परिवर्ती दर प्रतिवर्ती रेपो | एमएसएफ़ | एसडीएफ़ |                         | विक्रय         | क्रय |                                                      |
|                                                            | 1                     | 2               | 3                | 4                           | 5       | 6       |                         | 8              | 9    | 10                                                   |
| 6 जनवरी 2025                                               | -                     | -               | -                | -                           | 15860   | 54274   | -                       | -              | -    | -38414                                               |
| 7 जनवरी 2025                                               | -                     | -               | 50007            | -                           | 24676   | 66630   | 57                      | -              | -    | 8110                                                 |
| 8 जनवरी 2025                                               | -                     | -               | -                | -                           | 44652   | 48937   | -408                    | -              | -    | -4693                                                |
| 9 जनवरी 2025                                               | -                     | -               | 50004            | -                           | 20639   | 56581   | 980                     | -              | -    | 15042                                                |
| 10 जनवरी 2025                                              | -                     | -               | 275011           | -                           | 17638   | 76178   | -                       | -              | -    | 216471                                               |
| 11 जनवरी 2025                                              | -                     | -               | -                | -                           | 5712    | 50540   | -                       | -              | -    | -44828                                               |
| 12 जनवरी 2025                                              | -                     | -               | -                | -                           | 5882    | 53734   | -                       | -              | -    | -47852                                               |
| एसडीएफ़: स्थायी जमा सुविधा; एमएसएफ़: सीमांत स्थायी सुविधा। |                       |                 |                  |                             |         |         |                         |                |      |                                                      |

उपयुक्त जानकारी इंटरनेट <https://website.rbi.org.in/hi/web/rbi/publications/weekly-statistical-supplement> पर देखी जा सकती है।  
डब्ल्यूएसएस के लिए संकल्पनाएं तथा उन पर आधारित कार्यप्रणालियां डब्ल्यूएसएस संबंधी हस्तपुस्तिका (<https://website.rbi.org.in/hi/web/rbi/-/publications/a-handbook-on-rbi-s-weekly-statistical-supplement-15762>) में उपलब्ध हैं।  
समय शृंखला आंकड़े <https://data.rbi.org.in/> पर उपलब्ध हैं।